

{usp}



Lt Governor, AK Singh, Andaman & Nicobar Islands, unveiling the Foundation Stone Plaque for NLC's 20 MW Solar Power Project at Altam Pahar, South Andaman in the presence of BP Ray Member of Parliament, ANI, Sarat Kumar Acharya, Chairman and Managing Director, NLC, Anindo Majumdar, Chief Secretary, ANI, P Selvakumar, Director (Planning & Projects), NLC.



ONGC Videsh Limited and SOCAR Trading SA signed a MoU on the last May 27, 2016 at Geneva. The objective of MoU is to explore possibilities of Joint Marketing of ONGC Videsh's crude oil portfolio by leveraging SOCAR Trading's experience in oil trading. The MoU was signed by Director (Finance) ONGC Videsh Limited, SP Garg, and SOCAR Trading SA, Arzu Azimov, CEO.




The Assam Rifles Martial Arts Team emerged champions amongst the 19 participating State Police and other Para Military teams in the recently concluded National Martial Arts Council Games 2016 held at SRPF Ground, Goregaon, East Mumbai (Maharashtra). The team bagged a rich haul of 17 Gold Medals & 01 Silver Medal virtually dominating most weight categories in various martial arts forms for which the games were held. It was held in the disciplines of Kick boxing, Thai boxing, Karate, Judo, Jeet-Kune-Do, Classical Rolling, Crossbow Shooting, Kudo and Archery. Lt Gen HJS Sachdev, PVSM, AVSM, SM, ADC DG Assam Rifles has conveyed his felicitation to the Team for bringing laurels to the Force.



Assam Rifles pugilists emerged victorious in most boxing weight categories as the team bagged 08 Gold, 07 Silver and 01 Bronze medals in the 1st LB Chhetri Memorial Invitational Boxing Champion. The event witnessed the Assam Rifles boxers fight it out with boxing teams from Meghalaya, Manipur, Arunachal Pradesh and other states from the region. Lt Gen HJS Sachdev, PVSM, AVSM, SM, ADC Director General Assam Rifles conveyed his felicitation to the Boxing Team for their splendid show.



The 5th Banking & Finance Summit was organised in New Delhi by CII in association with Oriental Bank of Commerce to discuss the current Financial Scenario of the country. CII - CRISIL report on 'Building India through Stronger Financial Sector' was also unveiled on the occasion. Seen in the picture are Chairman, Banks Board Bureau, Vinod Rai, (4th from left), General Manager, Oriental Bank of Commerce, NK Chauhan, (extreme left) along with others.



IAA ACQUIRES FULL MEMBER STATUS OF PRESTIGIOUS ICAO TRAINAIR PLUS PROGRAM
Indian Aviation Academy (IAA), a joint venture of the Airports Authority of India (AAI), Director General of Civil Aviation (DGCA) and Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) has achieved one more milestone. International Civil Aviation Organisation (ICAO), a body of United Nations, has awarded Full Member Status to IAA under TRAINAIR PLUS Program. The Full Member Status is granted to the Civil Aviation Training Centre (CATC) worldwide, after fulfilling stringent requirements of ICAO which includes establishment of Course Development Unit (CDU) and development of at least one Standardised Training Program (STP) as per standard methodology of ICAO TRAINAIR PLUS Program. The CDU team of IAA successfully completed the development process of STP on 'Runway Rubber Removal' in May 2016 and has been duly validated by ICAO, Member (HR), Airports Authority of India, Anuj Aggarwal, had been the driving force in achieving this goal. He has also been instrumental in enhancing the capacity of IAA for meeting the future challenges, in the areas of Skill Development & Trainings in the Civil Aviation Sector.



New Branch Office and building of Bureau of Indian standards office in Jammu was inaugurated on Tuesday, by Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ram Vilas Paswan, in the august presence of Union Minister of State (Independent charge), Dr Jitendra Singh. The Food Minister mentioned that BIS operates 32 branches all over India to facilitate industries in delivering quality products to cater to the needs of the consumers through adoption of Standards in its manufacturing process which is important to compete in the global market.



Director General, Sashastra Seema Bal, Archana Ramasundaram felicitated Aparna Kumar at a function held at SSB Force Headquarters on Tuesday. Director General SSB congratulates her for being the first lady Indian Police Service Officer to scale Mount Everest and the first IPS Officer to scale the highest peaks of six out of seven continents. In presence of all Senior Officers at Force HQs DG, SSB presented a memento to Aparna Kumar.



KRBHCO, the world's premier Fertilizer, Seeds and Bio-fertilizer producing Cooperative, has won the First Prize under the Category of Private-Manufacturing Organisation-Large in the 13th National Award for Excellence in Cost Management 2015. The award was received by Rajan Chowdhry, Finance Director and GP Rao, GM (F&A), Plant from Naib Shah, IRS, Chairman, Central Board of Excise and Customs, Gol at a function held at Hotel Ashoka, New Delhi recently. The jury for the award was headed by Former Chief Justice of India, VN Khare and consisted eminent personalities in various fields of economy & industry.

Krishi Cess, 4-month window to disclose black money from today

PNS ■ NEW DELHI

A slew of budgetary proposals, including 0.5 per cent agriculture cess on all services and a 4-month disclosure scheme for domestic black money holders to come clean, will kick in on Wednesday.

The Equalisation levy of 6 per cent on cross border digital transactions and a one time settlement tax scheme for resolving disputes emanating from retrospective amendments to the Income Tax Act will also come into effect on Wednesday. With the imposition of Krishi Kalyan Cess (KKC), the total incidence

of service tax will increase to 15 per cent, thus making eating out, phone usage, air and rail travel, expensive. The 4-month Income Declaration Scheme provides one time opportunity to domestic black money holders to come clean by paying tax and penalty of 45 per cent on such assets will open tomorrow.

However, the scheme is not meant for those who have earned money through corruption. Last year the government had launched a similar scheme giving opportunity to people having unaccounted assets abroad to come clean by paying taxes and penalty.

MC-Stitch Limited

CIN:L65999DL1985PLC022321

Regd. Off.: 1, Community Centre, East of Kailash, New Delhi 110065

Tel No.011-40512848; email:sanjeev.chandra@gmail.com; website:www.mc-stitch.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

(Rupees In Lacs)

| Sr. No. | Particulars | Quarter Ended | Year Ended | Quarter Ended | Year Ended |
|---------|---|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 31/03/2015 | 31/03/2015 |
| 1. | Income from operations (net) | 26.31 | 45.25 | 30.64 | |
| 2. | Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax | 2.93 | 4.94 | 41.60 | |
| 3. | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items) | 2.93 | 4.94 | 41.60 | |
| 4. | Equity Share Capital (Face value Rs.10/- per Equity Share) | 383.45 | 383.45 | 383.45 | |
| 5. | Reserves (excluding Revaluation Reserve as at the Balance Sheet of previous year) | 1335.06 | 1335.06 | 1187.46 | |
| 6. | Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (Rs. 10/- each) | | | | |
| | Basic (Rs.) | 0.10 | 0.10 | 1.10 | |
| | Diluted (Rs.) | 0.10 | 0.10 | 1.10 | |

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of results for Quarter and year ended on 31 March,2016 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the statement of Operations and year results are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and the Company's website (www.drsocap.com).
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 28th May,2016.
3. The Statutory Auditors of the Company have Audited the above Results.
4. Figures for the previous period have been re-classified, re-grouped & rearranged where necessary.
5. The Figures for the quarter ended 31.03.2016 are the balancing figures between audited figures for the year ended 31.03.2016 and published year to date figures upto the third quarter ended 31.12.2015.

For and on behalf of the board
For MC-Stitch Ltd
Sanjeev Chandra
Director
DIN:0095561

LEADING LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN:L65910DL1985PLC016712

Registered Office: T - 59, Ground Floor, West Patel Nagar, Nr. Kharha Market, Delhi - 110008

Email ID:leadingleasing@gmail.com, Website: www.leadingleasefin.com

Phone: 91-011-25876635

Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31/03/2016

(Rs. In Lacs)

| Particulars | Quarterly | Yearly | Year to date figure for current period | Year ended | Year ended |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|---------------|
| | 3 months Ended (31/03/2016) | 3 months Ended (31/12/2015) | | | |
| (Refer Notes Below) | (Audited) | (Unaudited) | (Audited) | (Audited) | (Audited) |
| 1. Income from Operations: | | | | | |
| (a) Net Sales/income from Operations | | | | | |
| (b) Net of excise duty | 3.38 | 12.76 | 2.00 | 41.77 | 32.52 |
| (c) Other Operating Income | - | - | - | - | - |
| Total income from Operations (net) | 3.38 | 12.76 | 2.00 | 41.77 | 32.52 |
| 2. Expenses: | | | | | |
| (a) Cost of Materials consumed | - | - | - | - | - |
| (b) Purchase of stock-in-trade | - | - | - | - | - |
| (c) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade | - | - | - | - | - |
| (d) Employee benefits expense | 0.62 | 0.45 | - | 1.97 | 2.16 |
| (e) Depreciation and amortisation expense | - | - | - | - | 0.08 |
| (f) Other expenses (Any item exceeding 10% of the expenditure relating to continuing operations to be shown separately) | 3.58 | 0.32 | 0.73 | 4.50 | 18.91 |
| Leasing Fees | - | 20.90 | - | 20.90 | - |
| Contingent Provision against Standard Assets | 1.63 | - | - | 1.63 | - |
| Total Expenses | 5.83 | 21.67 | 0.73 | 29.00 | 21.15 |
| 3. Profit / (Loss) from operations before other finance costs and exceptional items (1-2) | (2.45) | (8.91) | 1.27 | 12.77 | 11.37 |
| 4. Other Income | - | - | - | - | 0.32 |
| 5. Profit / (Loss) from ordinary activities before finance costs and exceptional items (3+4) | (2.45) | (8.91) | 1.27 | 12.77 | 11.69 |
| 6. Finance Costs | 0.02 | 0.01 | - | 0.08 | 0.07 |
| 7. Profit / (Loss) from ordinary activities after finance costs but before exceptional items (5+6) | (2.47) | (8.92) | 1.27 | 12.69 | 11.62 |
| 8. Exceptional Items | - | - | - | - | - |
| 9. Profit / (Loss) from ordinary activities before tax (7+8) | (2.47) | (8.92) | 1.27 | 12.69 | 10.64 |
| 10. Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax (9±10) | (2.47) | (8.92) | 1.27 | 12.69 | 10.64 |
| 11. Extra ordinary items (Net of tax expenses Rs. Lacs) | - | - | - | - | - |
| 12. Net Profit / (Loss) for the period (11±12) | (2.47) | (8.92) | 1.27 | 12.69 | 10.64 |
| 13. Net Profit / (Loss) for the period (11±12) | (2.47) | (8.92) | 1.27 | 12.69 | 10.64 |
| 14. Paid-up equity share capital (Rs. 10/- each share shall be indicated) | 533.50 | 533.50 | 533.50 | 533.50 | 533.50 |
| 15. Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year | 30.38 | 17.68 | 7.04 | 30.38 | 17.68 |
| 16. i Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised): | (0.04) | (0.17) | 0.02 | 0.24 | 0.20 |
| ii Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised): | (0.04) | (0.17) | 0.02 | 0.24 | 0.20 |
| 17. Notes: | | | | | |
| 1. The above Audited Financial results have been reviewed by the Audit Committee & approved by The Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2016. | | | | | |
| 2. The figures do not include more than one repayment in line with the Accounting Standards (AS-17)-segment Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. | | | | | |
| 3. The previous period financial figures have been regrouped/rearranged wherever necessary to make them comparable. | | | | | |
| 4. EPS has been calculated in accordance with AS-20 issued by ICAI. | | | | | |
| Date: 30th May, 2016 | | | | | |
| Place: New Delhi | | | | | |
| Name: Jinen Manoj Shah | | | | | |
| Designation: Director | | | | | |
| DIIN:0026297 | | | | | |
| Address: 16 Vitrage, 1st Flr, Flat No. 102, Khotachiwadi, P.V. Rd, Mumbai 400024 | | | | | |
| Statement of Assets and Liabilities as at 31.03.2016 | | | | | |
| (Amount in Rs.) | | | | | |
| Standalone/ Consolidated Statement of Assets and Liabilities | | | | | |
| Particulars | As at Current year end (31/03/2016) | As at Previous year end (31/03/2015) | As at | As at 31st March, 2016 | (Rs. In Lacs) |
| A EQUITY AND LIABILITIES | | | | | |
| 1 Shareholders' funds | | | | | |
| (a) Share Capital | 53,350,000.00 | 53,350,000.00 | | 92,556,000.00 | 92,556,000.00 |
| (b) Reserves and Sur | | | | | |

नीरज पेपर मार्केटिंग लिमिटेड

CIN: L74899DL1995PLC066194

पंजी. कार्यालय: 218-222, अमरवल प्रस्तिज माल, प्लाट क्र. -2, सामुदायिक केंद्र, मार्ग क्र. -44 के साथ, पीनामुगा, दिल्ली-110034
फोन नं.: +91-11 47527700, फैक्स नं.: +91-11 47527777, ई-मेल: biresh@neerajpaper.com, Website: www.neerajpaper.com
31.03.2016 में समाप्त वर्ष तथा तीन माह हेतु एकल अंकेश्वित परिणाम

| विवरण | 31.03.2016 को समाप्त 3 माह अंकेश्वित | 31.03.2015 को समाप्त 3 माह अंकेश्वित | 31.03.2016 को समाप्त वर्ष अंकेश्वित | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष अंकेश्वित |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| संचालन से कुल आय (शुद्ध) | 12537.71 | 10459.43 | 38073.9 | 31003.08 |
| कर पर्याप्त साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ | -0.74 | 0.78 | 67.27 | 59.63 |
| कर पर्याप्त अवधि हेतु शुद्ध लाभ (असाधारण मर्दों के पर्याप्त) | -0.74 | 0.78 | 67.27 | 59.63 |
| चुकाई ईंट सम्पूर्ण अंक नहीं | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| संरक्षण पुर्ण - मूल्यांकन सुविधा शामिल नहीं करके, | - | - | 1454.96 | 1387.60 |
| पूर्ण लेते रहे के बैलेट शो के अनुसार | | | | |
| प्रति अंक आय (असाधारण सामग्री पूर्ण) (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक) | -0.01 | 0.30 | 0.61 | 0.54 |
| (क) मूल्यांकन ईंटेल (वार्षिक नहीं) | -0.01 | 0.30 | 0.61 | 0.54 |
| (ख) इन्टर ईंटेल (वार्षिक नहीं) | -0.01 | 0.30 | 0.61 | 0.54 |
| (ड) मूल्यांकन ईंटेल (वार्षिक नहीं) | -0.01 | 0.30 | 0.61 | 0.54 |
| (ख) इन्टर ईंटेल (वार्षिक नहीं) | -0.01 | 0.30 | 0.61 | 0.54 |

टिप्पणी: (1) उपरोक्त परिणाम ऑडिट कमेंटों द्वारा समीक्षा एवं सुस्थित किए गए तथा निदेशक मण्डल द्वारा 30.05.2016 को आयोजित उनको बैठक में रिकॉर्ड पर दर्ज किया गया।

(2) वर्तमान तथा वर्ष के अन्तिम तिथियों के अंक 31.03.2016 तक एर्पॉन्य वर्ष के संबंध में अंकेश्वित अंकों के मध्य सनुक्तन कार्य अंक है तथा संविधित वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर 2015 को समाप्त तुलीय वित्तीय तक अंक अंकेश्वित ईंट द्वारा प्रकाशित है।

(3) उपरोक्त वित्तीय वर्ष को लियोगी तथा अवधिकारी तारीख (कार्टीकटर) रोलेस्टार्स, 2015 का रोलेस्टार्स 33 के अन्तिम स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत तिथियों नहीं मान के विवाह परिणामों के विवाह प्राप्ति से उद्धरित किया गया है। तिथियों वार्षिक वित्तीय परिणाम का पूर्ण प्राप्ति स्टॉक एक्सचेंज को वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कंपनी वेबसाइट (www.neerajpaper.com पर उल्लिख है।

नीरज पेपर मार्केटिंग लि.

हस्ताक्षर

(दीपक गोपल)

पूर्ण कालिक निदेशक

डीआईएन: 00200527

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 30.05.2016

ए एन एस इपडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 136, किमी, जटी रोड, गांव तथा पोर्ट ऑफिस-शामपाड़, करनाल (हरियाणा)

मुख्य कार्यालय: 144/2, आश्रम, प्रभु रोड, नई दिल्ली-110014

CIN: L15130HR1994PLC032362

Website: www.ansfoods.com, Email ID: ansgro.limited@gmail.com

31.03.2016 को समाप्त वर्ष तथा तीन माह हेतु एकल प्रिष्ठि वित्तीय वर्ष को स्टैटेंट (रु. लाखों में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2016 को समाप्त 3 माह अंकेश्वित | 31.12.2015 को समाप्त 3 माह अंकेश्वित | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष अंकेश्वित | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष अंकेश्वित |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | संचालन से कुल आय | 360.56 | 145.00 | 325.54 | 739.66 |
| | ए-कॉर्डर रोटीस्ट्रेस रोटीस्ट्रेस संचालन से कुल आय (शुद्ध) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | व्यय | 0.00 | 0.00 | 25.65 | 0.00 |
| | ए-उत्पादों को गई सामग्री को लागत | 0.00 | 0.00 | 25.65 | 0.00 |
| | सं-लेता वाले की लागत में प्रति में कार्य ईंट-इन-ड्रेट | 31.50 | 22.25 | 35.25 | 91.65 |
| | ई-हास तथा अवधि वित्तीय वर्ष | 33.50 | 15.25 | 20.00 | 82.83 |
| | एन-अव व्यय (पूर्ण रूप से दर्शन हेतु कुल व्यय की 10 वित्तीय अधिक वित्तीय सामग्री) | 293.06 | 90.59 | 225.49 | 49.25 |
| | कुल व्यय | 358.06 | 128.09 | 306.39 | 646.73 |
| 3. | अन्य आय | 2.50 | 16.91 | 19.15 | 92.93 |
| | वित्तीय वर्ष तथा अवधि व्यय सामग्री पूर्ण संचालन कार्य से लाभ/हानि (1-2) | 2.50 | 16.91 | 19.15 | -98.47 |
| 4. | अन्य आय | 2.50 | 16.91 | 19.15 | -98.47 |
| | वित्तीय वर्ष तथा अवधि व्यय सामग्री से लाभ/हानि (3-4) | 2.50 | 16.91 | 19.15 | -98.47 |
| 5. | वित्तीय वर्ष | 7.50 | 750 | 0.00 | 30.00 |
| | वित्तीय वर्ष प्राप्ति के लियोगी तथा अवधिकारी तारीख (5-6) | 5.00 | 9.41 | 19.15 | 62.93 |
| 6. | अपारद व्यवसाय सामग्री | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | कर व्यय | -5.00 | 9.41 | 19.15 | 62.93 |
| 8. | अपारद व्यवसाय सामग्री | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | कर व्यय वित्तीय वर्ष सामग्री से लाभ/हानि (7+8) | -5.00 | 9.41 | 19.15 | -98.47 |
| 10. | कर व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | कर व्यय वित्तीय वर्ष सामग्री गतिविधियों से लाभ/हानि (9+10) | -5.00 | 9.41 | 19.15 | -98.47 |
| 12. | अवधि वित्तीय वर्ष | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | अवधि वित्तीय वर्ष (हानि) (11-12) | -5.00 | 9.41 | 19.15 | -98.47 |
| 14. | एन-व्यय सामग्री (हानि) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | अन्य आय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | वर्ती वार्ष वित्तीय वर्ष तथा अवधि व्यय सामग्री पूर्ण संचालन कार्य से लाभ/हानि (13+14+15) | -5.00 | 9.41 | 19.15 | -98.47 |
| 17. | चुकाई गंगा सम्पूर्ण अंकेश्वित व्यवसाय सामग्री पूर्ण संचालन कार्य के लियोगी तथा अवधिकारी तारीख (16) | 925.56 | 925.56 | 925.56 | 925.56 |
| 18. | प्रति अंक व्यय (पूर्ण रूप से दर्शन हेतु कुल व्यय की 10 वित्तीय अधिक वित्तीय सामग्री पूर्ण) | 925.56 | 925.56 | 925.56 | 925.56 |
| 19. | प्रति अंक व्यय (पूर्ण रूप से दर्शन हेतु कुल व्यय की 10 वित्तीय अधिक वित्तीय सामग्री पूर्ण) | 925.56 | 925.56 | 925.56 | 925.56 |
| 20. | प्रति अंक व्यय (पूर्ण रूप से दर्शन हेतु कुल व्यय की 10 वित्तीय अधिक वित्तीय सामग्री पूर्ण) | 925.56 | 925.56 | 925.56 | 925.56 |
| 21. | प्रति अंक व्यय (पूर्ण रूप से दर्शन हेतु कुल व्यय की 10 वित्तीय अधिक वित्तीय सामग्री पूर्ण) | 925.56 | 925.56 | 925.56 | 925.56 |
| 22. | प्रति अंक व्यय (पूर्ण रूप से दर्शन हेतु कुल व्यय की 10 वित्तीय अधिक वित्तीय सामग्री पूर्ण) | 925.56 | 925.56 | 925.56 | 925.56 |
| 23. | प्रति अंक व्यय (पूर्ण रूप से दर्शन हेतु कुल व्यय की 10 वित्तीय अधिक वित्तीय सामग्री पूर्ण) | 925.56 | 925.56 | 925.56 | 925.56 |
| 24. | प्रति अंक व्यय (पूर्ण रूप से दर्शन हेतु कुल व्यय की 10 वित्तीय अधिक वित्तीय सामग्री पूर्ण) | 925.56 | 925.56 | 925.56 | 925.56 |
| 25. | प्रति अंक व्यय (पूर्ण रूप से दर्शन हेतु कुल व्यय की 10 वित्तीय अधिक वित्तीय सामग्री पूर्ण) | 925.56 | 925.56 | 925.56 | 925.56 |
| 26. | प्रति अंक व्यय (पूर्ण रूप से दर्शन हेतु कुल व्यय की 10 वित्तीय अधिक वित्तीय सामग्री पूर्ण) | 925.56 | 925.56 | 925.56 | 925.56 |
| 27. | प्रति अंक व्यय (पूर्ण रूप से दर्शन हेतु कुल व्यय की 10 वित्तीय अधिक वित्तीय सामग्री पूर्ण) | 925.56 | 925.56 | 925.56 | 925.56 |
| 28. | प्रति अंक व्यय (पूर्ण रूप से दर्शन हेतु कुल व | | | | |